

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii) **27 JAN 1973**

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1973/वी० 11, 1894

No. 5] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1973/PAUSA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1973

S.O. 5(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby directs that the undertaking of every existing insurer, who is not an Indian insurance company, specified in column (2) of the Schedule to this notification, which stands transferred to and vested in the Central Government on the appointed day under that sub-section, shall be transferred to and vested in the Indian insurance company specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule.

THE SCHEDULE

S. No.	Name of the existing insurer	Name of the Indian insurance company
(1)	(2)	(3)
1	Co-operative Fire & General Insurance Society Limited.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
2	Co-operative General Insurance Society Limited.	United India Fire & General Insurance Company Limited.

(1)	(2)	(3)
3	Indian Mutual General Insurance Society Limited.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
4	Milowners' Mutual Insurance Association Limited.	National Insurance Company Limited.
5	Orissa Cooperative Insurance Society Limited.	New India Assurance Company Limited.
6	Reinsurance Association of India (International) Limited.	New India Assurance Company Limited.
7	Union Co-operative Insurance Society Limited.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
8	Alliance Assurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
9	American Insurance Company.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
10	Atlas Assurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
11	Baloise Insurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
12	British Aviation Insurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
13	Caledonian Insurance Company.	National Insurance Company Limited.
14	Century Insurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
15	Commercial Union Assurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
16	Eagle Star Insurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
17	Gerling Global Reinsurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
18	Great American Insurance Company.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
19	Guardian Assurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
20	Hanover Insurance Company.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
21	Hartford Fire Insurance Company.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
22	Home Insurance Company.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
23	Legal & General Assurance Society Limited.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
24	Liverpool and London and Globe Insurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
25	London Assurance.	National Insurance Company Limited.
26	London Guarantee & Accident Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
27	London & Lancashire Insurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
28	L'Union Fire, Accident and General Insurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
29	National Employers' Mutual General Insurance Association Limited.	National Insurance Company Limited.
30	National Insurance Company of New Zealand Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
31	New Hampshire Insurance Company.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
32	New Zealand Insurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.

(1)	(2)	(3)
33	Norwich Union Fire Insurance Society Limited.	National Insurance Company Limited.
34	Phoenix Assurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
35	Provincial Insurance Company Limited.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
36	Queensland Insurance Company Limited.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
37	Royal Exchange Assurance.	National Insurance Company Limited.
38	Royal Insurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
39	Scottish Union & National Insurance Company.	National Insurance Company Limited.
40	Skandia Insurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
41	South British Insurance Company Limited.	United India Fire & General Insurance Company Limited.
42	Sun Insurance Office Limited.	National Insurance Company Limited.
43	Switzerland General Insurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
44	Threadneedle Insurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
45	Tokio Marine & Fire Insurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
46	Union Insurance Society of Canton Limited.	National Insurance Company Limited.
47	United Scottish Insurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
48	Welfare Insurance Company Limited.	National Insurance Company Limited.
49	Western Assurance Company.	National Insurance Company Limited.
50	Yorkshire Insurance Company Limited.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.
51	Zurich Insurance Company.	Oriental Fire & General Insurance Company Limited.

[No. F. 64(31)-Ins. I/72]

A. RAJAGOPALAN,

Officer On Special Duty & Ex-officio Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1973

एस० ओ० 5(अ).—साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यमान बीमाकर्ता, जो भारतीय बीमा कम्पनी नहीं है, का उपक्रम जो उस उप-धारा के अधीन नियत दिन को केन्द्रीय सरकार को अन्तर्गत और उसमें निहित है, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भारतीय बीमा कम्पनी को अन्तर्गत और उसमें निहित कर दिया जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं०	विद्यमान बीमाकर्ता का नाम	भारतीय बीमा कंपनी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कोआपरेटिव फायर एंड जनरल इश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड ।	यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
2.	कोआपरेटिव जनरल इश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड ।	यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
3.	इन्डियन म्युचुअल जनरल इश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड ।	यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
4.	मिलोनर्स म्युचुअल इश्योरेन्स एसोसिएशन लिमिटेड ।	नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
5.	उडीसा को-आपरेटिव इश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड ।	न्यू इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
6.	रिइन्श्योरेन्स एसोसिएशन आफ इंडिया (इन्टरनेशनल) लिमिटेड ।	न्यू इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
7.	यूनियन को-आपरेटिव इश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड ।	यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
8.	ऐलायन्स इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
9.	अमेरिकन इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	यूनाइटेड इन्डिया फायर एंड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
10.	एटलस इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
11.	बेनोइन्स इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एंड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
12.	ब्रिटिश एविएशन इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एंड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
13.	केलेडोनियन इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
14.	सेन्चुरी इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
15.	कार्मशियल यूनियन इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
16.	ईगल स्टार इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एंड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
17.	जॉर्ज ग्लोबलरि इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एंड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।
18.	ग्रेट अमेरिकन इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।

(1)	(2)	(3)
19. गार्डियन एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
20. हनीवर इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
21. हार्टफोर्ड फायर इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
22. होम इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
23. लीगल एण्ड जनरल एश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड ।	यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
24. सिवर-पूल एण्ड लण्डन एण्ड ग्लोब इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
25. लण्डन एश्योरेन्स ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
26. लण्डन गारन्टी एण्ड एक्सीडेंट कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
27. लण्डन एण्ड लंकाशायर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
28. एल० यूनियन फायर, एक्सीडेंट एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
29. नेशनल इम्प्लायर्स म्यूचुअल जनरल इन्श्योरेन्स एसोसिएशन लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
30. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ न्यूजीलैण्ड लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
31. न्यू हैम्पशायर इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
32. न्यूजीलैण्ड इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
33. नार्विच यूनियन फायर इन्श्योरेन्स सोसायटी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
34. फोनेक्स एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
35. प्राविन्सियल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
36. क्वींसलैण्ड इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	

(1)	(2)	(3)
37. रायल एक्सचेंज एश्योरेन्स ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
38. रायल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
39. स्काटिश यूनियन एण्ड नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
40. स्केन्डिनाविया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
41. साउथ ब्रिटिश इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
42. सन इन्श्योरेन्स आफिस लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
43. स्विट्जरलैण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
44. थोडनीडल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
45. टोकियो मेरीन एण्ड फायर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
46. यूनियन इन्श्योरेन्स सोसाइटी आफ कैंटन लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
47. यूनाइटेड स्काटिश इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
48. वेलफेयर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
49. वेस्टर्न एश्योरेन्स कम्पनी ।	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
50. वार्कशायर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	
51. ज्यूरिक इन्श्योरेन्स कम्पनी ।	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।	

[सं० फा० 64(31)/बीसा 1/72]

अ० राजगोपालन,

विशेष कार्य अधिकारी और पब्लिक अपर सचिव ।